

**Date:** January 23, 2026

**To,**  
**The Manager - Listing**  
**Dept of Corp. Services,**  
**BSE Limited**  
**P.J. Towers, Dalal Street, Fort,**  
**Mumbai – 400 001**  
**Scrip Code: 543593**

**The Manager – Listing**  
**National Stock Exchange of India Ltd.**  
**Exchange plaza,Bandra Kurla Complex**  
**Bandra East**  
**Mumbai – 400 051**  
**Symbol: DBOL**

Dear Sir/Mam,

**Sub: Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2025**

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith the copies of Business Standard (English and Hindi both) dated January 23, 2026 wherein the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2025 have been published.

You are requested to take note of the same.

Thanking you

Your Sincerely,  
**For Dhampur Bio Organics Limited**

**Ashu Rawat**  
**Company Secretary & Compliance Officer**

# Airtel unlikely to take legal route for AGR relief, for now

Writes to DoT seeking reassessment of dues

GULVEEN AULAKH  
New Delhi, 22 January

India's second-largest telecom service provider, Bharti Airtel, is unlikely to approach the courts in the near term to seek relief on dues related to adjusted gross revenue (AGR), said people in the know. Instead, the company has written to the Department of Telecommunications (DoT) seeking a reassessment and recalculation of its AGR dues. The move was confirmed by Bharti Enterprises Chairman Sunil Mittal, who is currently in Davos, Switzerland, attending the World Economic Forum (WEF).

"We've written to the government that AGR was our issue as well, and we hope we get their attention," Mittal told *CNBC TV18* in an interaction at the WEF. He added that the company was yet to hear back from the government on its request.

Earlier this month, the government granted Aditya Birla Group-promoted Vodafone Idea (Vi) a 10-year breather on AGR payments, allowing it to pay a maximum of ₹124 crore annually for six years starting March this year, followed by ₹100 crore annually for four years beginning March 2032.

During this period, Vi's AGR liabilities will be reassessed and finalised by a government-appointed committee. Payments on the reassessed dues will begin from March 2036 on an annual basis and continue until March 2041. The government has frozen Vi's AGR dues at ₹87,695



crore as of December 31, 2025.

Airtel's AGR dues are estimated to exceed ₹40,000 crore. The company has previously sought conversion of these liabilities into equity and has already paid around ₹18,000 crore towards AGR dues. The dues continue to accrue as they have not been frozen.

"We've not heard back from the government, but we heard the minister yesterday. He mentioned that everybody should take the route that Vi followed, which is via the courts. But we'll still engage with the government," Mittal said. He was referring to comments made on Wednesday by Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia, where he said relief to Vi was granted strictly on the basis of a Supreme Court judgment and did not automatically extend to other players.

"...if there are others that have that desire then they will have to also go through the same route," the minister had said.

At the WEF, Mittal said: "We just want to present our case to the govern-

ment, especially around reassessment and recalculation. That's not a legal point, but a mathematical correction of errors. So, we'll engage with the government first," he said.

Querries sent to Airtel seeking clarity on whether the company's change of plans to approach the courts and whether it has sought similar payment terms as Vi did not elicit a response until press time.

While Mittal clarified that Airtel was not seeking any special treatment or concessions, he did not specify whether Airtel has asked for similar payment terms, including a moratorium after reassessment, as have been extended to Vi.

"For anybody, the formula will be the same. If there's money paid that hasn't been counted, or if there's double billing, and that is established, your base principal goes down. That has a cascading effect on penalty, interest and interest on penalty, and the amount can come down significantly," Mittal said. "I don't think any government would want to take more money than what is due. In our case, we're saying take what is due. We're not asking for any concessions, but don't take more than what is due."

Mittal said Vi's revival would be good for competition in the Indian telecom market as its large subscriber base could accommodate three private operators and one government-owned player.

# TVS Emerald secures ₹425 cr equity investment from IFC for expansion

SHINE JACOB  
Chennai, 22 January

TVS Emerald, a leading real estate developer, on Thursday announced an investment of ₹425 crore in the nature of equity from the International Finance Corporation (IFC), marking a milestone in its growth journey.

Over the last five years, TVS Emerald has scaled its operations significantly, growing residential development footprint five times and

strengthening execution capabilities across Chennai, Bengaluru markets.

The investment will be used to develop two residential projects set to be launched in FY27 — Pallavaram-Thoraipakkam Radial Road (PTR) in Chennai, with an investment of ₹136 crore, and Sathanur in Bengaluru, with an investment of ₹103 crore. The rest will be earmarked for additional residential projects to be launched over the next two years. Together, these two projects represent a growth opportu-

nity for the company, with an estimated combined top-line potential of approximately ₹4,400 crore, comprising around ₹1,600 crore from the Sathanur project and ₹2,800 crore from the PTR project.

Commenting on the development, Sriram Iyer, director and chief executive officer, TVS Emerald, said: "This partnership reflects confidence in TVS Emerald's long-term vision, growth, execution capabilities and governance framework."

# DHAMPUR BIO ORGANICS LIMITED

Regd. Office : Sugar Mill Compound, Village Asmoli Sambhal Moradabad, UP - 244304 IN

CIN - L15100UP2020PLC136939, Phone No - +91-7302318313

Email : investors@dhampur.com, Website - www.dhampur.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2025

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months ended		Year Ended
		31/Dec/25 (Unaudited)	30/Sep/25 (Unaudited)	31/Dec/24 (Unaudited)	31/Dec/25 (Unaudited)	31/Dec/24 (Unaudited)	31/Mar/25 (Audited)
1.	Total Income from Operations	760.21	838.36	719.25	2,383.83	1,992.84	2,696.64
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	25.68	-23.40	-8.38	-30.68	-43.10	17.47
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	25.68	-23.40	-10.14	-30.68	-44.86	15.71
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	16.90	-15.99	-6.86	-21.09	-30.11	14.69
5.	Total Comprehensive Income for the period	15.60	-15.02	-6.29	-21.47	-29.40	16.72
6.	Paid up Equity Share Capital	66.39	66.39	66.39	66.39	66.39	66.39
7.	Other Equity						945.35
8.	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (Refer note (iv))						
	Basic (₹ per share)	2.56	-2.41	-1.03	-3.19	-4.54	2.21
	Diluted (Anti-dilutive) (₹ per share)	2.55	-2.41	-1.03	-3.19	-4.54	2.21

## Notes:

i) These unaudited consolidated financial results which are published in accordance with Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ('Listing Regulations') have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on January 21, 2026. These unaudited standalone financial results have been prepared in accordance with recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards ("Ind-AS") prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

ii) These unaudited consolidated financial results have been subjected to a "limited review" by the statutory auditors of the Parent Company. The statutory auditors have expressed an unmodified conclusion in the review report for the quarter and nine months ended December 31, 2025.

iii) The Parent Company has two wholly owned subsidiaries, Sonitron Bio Organics Private Limited & Dhampur International Pte. Limited as on December 31, 2025.

iv) Pursuant to the resolution passed by the shareholders of the Parent Company dated May 4, 2025 via Postal Ballot wherein DBO Employee Stock Option Scheme 2025 was approved, during the quarter ended September 30, 2025, the Parent Company granted 357881 stock options convertible into equal number of equity shares of the Parent Company of face value of ₹ 10/- each, as approved by the Nomination and Remuneration Committee (NRC) of the Parent Company, to the eligible employees of the Parent Company, through Trust route, under the DBO Employee Stock Option Scheme 2025. The Parent Company has granted interest free loan to the DBO Employee Welfare Trust (Trust) amounting to ₹ 500,00,000 /- (Rupees Five Crore only) and the Trust has acquired 5,84,000 shares from the market at an average price of ₹ 84.92 per share. Acquisition cost of shares held by the Trust is presented as reduction in 'Other Equity'. Share based payment expense for the quarter and nine months ended December 31, 2025 is ₹ 0.10 crore and ₹ 0.17 crore respectively.

v) Other income for the quarter and nine months ended December 31, 2025 includes insurance claims of ₹ 8.64 Crore and ₹ 17.92 Crore respectively, equivalent to the loss/expenditure incurred due to break downs and accidents during the period respectively, which are accounted and provided for as per consistent accounting policy followed by the Parent Company.

vi) Pursuant to the implementation of the New Labour Codes with effect from November 21, 2025 (the supporting Rules are yet to be notified), the Parent Company has reassessed its employee benefit obligations and recognised defined benefit obligations as per actuarial valuation as at December 31, 2025. The Parent Company is in the process of evaluating other possible impacts, if any. However, management is of the view that impact, if any, is unlikely to be material.

vii) Sugar being a seasonal industry, the performance of the quarter may not be representative of the annual performance of the Company.

viii) Figures for the previous corresponding periods have been regrouped, wherever considered necessary.

ix) The consolidated unaudited financial results are available on the website of the Company (www.dhampur.com).

The specified items of the standalone financial results of the Company are given below:

Particulars	Quarter Ended			Nine Months ended		Year Ended
	31/Dec/25 (Unaudited)	30/Sep/25 (Unaudited)	31/Dec/24 (Unaudited)	31/Dec/25 (Unaudited)	31/Dec/24 (Unaudited)	31/Mar/25 (Audited)
Total Income	714.21	806.58	741.08	2,343.69	2,014.54	2,718.11
Profit/ (Loss) before tax	21.49	-22.94	-9.61	-31.03	-42.43	17.84
Profit/ (Loss) after tax	13.87	-15.53	-6.21	-21.03	-27.56	12.09

For Dhampur Bio Organics Limited

Sd/-

Gautam Goel

Managing Director & CEO

DIN 00076326

Place : New Delhi


Dated: January 21, 2026

## When industry giants speak, everyone listens.

In-depth **Q&As** with market mavens — every Monday in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

## Quarter 3 Highlights Financial Year 2025–26



Banking Outlets **6,367**

Customers **3.25 cr**

Data as on December 31, 2025							
Extract of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2025							
Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015							
Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31st Dec, 2025 (Unaudited)	Quarter ended 30th Sep, 2025 (Unaudited)	Quarter ended 31st Dec, 2024 (Unaudited)	Nine Months ended 31st Dec, 2025 (Unaudited)	Nine Months ended 31st Dec, 2024 (Unaudited)	Year ended 31st Mar, 2025 (Audited)
1.	Total Income from Operations	6,12,224.61	5,90,027.22	6,59,055.76	18,22,400.88	18,78,134.64	24,91,482.87
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	29,037.73	15,779.11	64,534.97	96,966.28	3,31,209.76	3,62,327.70
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	29,037.73	15,779.11	64,534.97	96,966.28	3,31,209.76	3,62,327.70
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	20,559.09	11,187.14	42,648.57	68,942.43	2,42,739.12	2,74,529.55
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	Refer note 2	Refer note 2	Refer note 2	Refer note 2	Refer note 2	Refer note 2
6.	Paid up Equity Share Capital	1,61,097.14	1,61,097.14	1,61,097.13	1,61,097.14	1,61,097.13	1,61,097.14
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of the previous year						22,74,813.04
8.	Earnings Per Share (₹) (before extra ordinary items) (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
1. Basic:		1.28	0.69	2.65	4.28	15.07	17.04
2. Diluted:		1.28	0.69	2.65	4.28	15.07	17.04
9.	Earnings Per Share (₹) (after extra ordinary items) (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
1. Basic:		1.28	0.69	2.65	4.28	15.07	17.04
2. Diluted:		1.28	0.69	2.65	4.28	15.07	17.04

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly/nine months Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/nine months Results is available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the website of the Bank (https://bandhan.bank.in/sites/default/files/2026-01/Quarterly-Result-Q3-FY-25-26.pdf).

2. Information relating to Total Comprehensive Income and Other Comprehensive Income is not furnished as Ind AS is not yet made applicable to banks.

Place: Kolkata  
Date: January 22, 2026  
Bandhan Bank Limited  
CIN: L67190WB2014PLC204622  
Registered Office: DN-32, Sector V, Salt Lake City, Kolkata – 700 091  
Tel.: (033)66090909, Website: www.bandhan.bank.in  
Email: investors@bandhanbank.com



For Bandhan Bank Limited  
Partha Pratim Sengupta  
Managing Director & CEO  
DIN: 08273324



# जांच के घरे में सेबी के शिकायत पोर्टल

खुशबू तिवारी और समी मोडक  
मुंबई, 22 जनवरी

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के निवेशक शिकायत निवारण प्लेटफार्मों – स्कोर्स और मार्केट इंटीलिजेंस (एमआई) पोर्टल- की कार्यकुशलता जांच के दायरे में आ गई है। बाजार के प्रतिभागियों का आरोप है कि शिकायतों को अक्सर दोनों प्रणालियों के बीच एक से दूसरी जगह भेज दिया जाता है या फिर स्टॉक एक्सचेंज या नियामक पर्याप्त जांच किए बिना ही उन्हें बंद कर देते हैं।

वरुण बेवरिजेज और तंजानिया बॉटलिंग कंपनी एस्प (टीबीसी) से जुड़े एक विवाद में प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (सैट) के समक्ष कार्यवाही के दौरान सेबी की शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर) और एमआई पोर्टल हाल ही में चर्चा का सबब बने।

स्कोर पोर्टल निवेशकों को सूचीबद्ध कंपनियों, सेबी पंजीकृत मध्यस्थों और मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्यूशंस के खिलाफ प्रतिभूति बाजार से संबंधित शिकायतें दर्ज करने की सुविधा देता है। इसके विपरीत, एमआई पोर्टल का मकसद प्रतिभूति कानूनों के कथित उल्लंघनों



**शिकायतों का निपटान न होने का आरोप**

■ चालू वित्त वर्ष में स्कोर्स पर लगभग 43,000 शिकायतें दाखिल की गई हैं। इनमें से लगभग 37,500 का निपटारा हो चुका है

■ कंप्यूटर से जनरेटेड क्लोजर के माध्यम से स्कोर्स पर शिकायतों का नियमित निपटान लगातार चुनौती बना हुआ है, इसमें कई आदेशों में तो शिकायत की गुणवत्ता भी नहीं देखी जाती

के संबंध में सेबी को जानकारी देना है। टीबीसी ने सैट से संपर्क किया, जब पिछले साल सेबी ने स्कोर्स पर दाखिल उसकी शिकायत को खारिज कर दिया था, इसमें वरुण बेवरिजेज से शेयर खरीद समझौता रद्द करने के संबंध में खुलासे की मांग की गई थी। हालांकि सैट ने सेबी को मामले की दोबारा जांच का निर्देश दिया, लेकिन उसने यह भी कहा कि टीबीसी की शिकायत पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया

था। उसने यह भी कहा कि एमआई पोर्टल पर दाखिल शिकायत का भी यही हाल हुआ। कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि यह आदेश स्कोर्स और एमआई पोर्टल दोनों की डिजाइन और कामकाज में प्रणालीगत खामियों के साथ-साथ शिकायतों के निपटान में सेबी की विसंगतियों को बताता है। सैट के समक्ष टीबीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले सुप्रीम लॉ पार्टनर्स में मैनेजिंग पार्टनर सुप्रीम

**अवधूत साठे को 100 करोड़ रु. जमा कराने का निर्देश**  
खुशबू तिवारी  
मुंबई, 22 जनवरी

प्रतिभूति अपील ट्रिब्यूनल (सैट) ने गुरुवार को अवधूत साठे ट्रेडिंग अकादमी (एएसटीए) और उसके निदेशकों अवधूत साठे और गौरी साठे को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के दिसंबर 2025 के आदेश के संबंध में 100 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। सेबी ने एएसटीए के कथित अवैध लाभ के 546 करोड़ रुपये जब्त करने का आदेश दिया था। ट्रिब्यूनल ने ट्रेडिंग पर सेबी के प्रतिबंधों और खाता फ्रीज करने के निर्देशों में संशोधन करते हुए याची को आंशिक राहत दी लेकिन इसके लिए उक्त राशि जमा करने की शर्त रखी। सैट ने कहा कि अकादमी की अचल संपत्तियों के मूल्य और लगभग 166 करोड़ रुपये के कर हिस्से को ध्यान में रखते हुए उसने 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा निकाला है। सेबी ने अपने एकतरफा अंतरिम आदेश-सह-कारण बताओ नोटिस में आरोप लगाया था कि एएसटीए शेयर बाजार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आड़ में बिना पंजीकरण के निवेश सलाह और अनुसंधान विश्लेषण सेवाएं दे रही थी। एएसटीए ने सेबी के आदेश को पूरी तरह रद्द करने की मांग की लेकिन न्यायाधिकरण ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

**2.30 लाख रुपये पर पहुंच सकती हैं सोने की कीमतें**


पुनीत वाधवा  
नई दिल्ली, 22 जनवरी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें पिछले एक साल में 73 फीसदी बढ़कर 4,800 डॉलर प्रति औंस से ज्यादा हो गई हैं। विश्लेषकों का कहना है कि आगे भी सोने का भाव 46 प्रतिशत और बढ़कर 7,000 डॉलर तक पहुंच सकता है। सैमको सिन्थोरेटिज में बाजार परिदृश्य और शोध मामलों के प्रमुख अपूर्व शेट ने कहा कि कीमतों में यह बढ़ोतरी भूराजनीतिक अनिश्चितता, ज्यादा राजकोषीय घाटे, केंद्रीय बैंक की मांग और वास्तविक ब्याज दर के मददगार परिवेश की वजह से हो रही है। गुरुवार को कीमतों में गिरावट आई लेकिन यह धातु शॉर्ट-टर्म ट्रेड के बजाय लॉन्ग-टर्म पोर्टफोलियो के लिए भरोसेमंद आधार है। उन्होंने कहा, 'आगामी परिदृश्य के लिहाज से एक मजबूत तेजी के बाद बीच-बीच में ठहराव आना स्वाभाविक है, लेकिन व्यापक धारणा से संकेत मिलता है कि सोना आने वाले वर्षों में अच्छी स्थिति में रहेगा।' शेट ने कहा, 'फिबोनाकी के विस्तार के आधार पर 7,040 डॉलर के पास अगला बड़ा लक्षित जोन है और अगले दो से तीन साल



में इसके ऊपर जाने की संभावना है। अगर रुपया मौजूदा स्तर के आसपास स्थिर रहता है, तो एमसीएक्स पर इसका स्तर लगभग 2.3 लाख रुपये होगा।' उन्होंने कारोबारियों द्वारा भविष्य के कीमत लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक टेक्नीकल टूल का हवाला देते हुए यह बात कही। जेफरीज में इक्विटी स्ट्रेटेजी के वैश्विक प्रमुख क्रिस्टोफर वुड को उम्मीद है कि सोने में तेजी जारी रहेगी और इसकी कीमतें कुछ महीनों में 6,600 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच जाएंगी। दिसंबर 2002 में, वुड ने सोने की कीमतों के 3,400 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने का अनुमान

वास्कर ने कहा, कई मामलों में, खासतौर पर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जानकारी छिपाने से जुड़े मामलों में, इस तरह के उल्लंघन निरंतर जारी हैं। समय पर नियामकीय हस्तक्षेप या खुलासे न किए जाने, जिनमें अक्सर देर होती है, से ये मामले निवेशकों, शेयरधारकों और बाजार की अखंडता को प्रतिकूल तरीके से प्रभावित करते रहते हैं। चालू वित्त वर्ष में स्कोर्स पर लगभग 43,000 शिकायतें दाखिल की गई हैं। इनमें से लगभग 37,500 का निपटारा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड बी. श्रवत शंकर ने कहा, प्रक्रिया संबंधी मामूली चूकों पर अपने आप क्लोजर हो जाना शिकायतकर्ताओं पर एक तरह से दंड है और जवाब न देने वाली इकाइयों को लाभ है। गंभीर आरोपों को अक्सर स्कोर्स और एमआई पोर्टल के बीच इधर-उधर किया जाता है, जिससे कोई जवाबदेही नहीं होती है और निवेशकों के पास समाधान का कोई स्पष्ट तरीका नहीं बचता। शंकर ने पारदर्शिता संबंधी चिंताओं को भी उठाया और कहा कि शिकायतकर्ता के दृष्टिकोण से पूरे समय के दौरान शिकायत की कोई जांच ही नहीं होती- खासतौर पर तब जब कोई मामला एमआई पोर्टल पर चला जाता है।



**Business Standard**  
Insight Out



# DHAMPUR BIO ORGANICS LIMITED

Regd. Office : Sugar Mill Compound, Village Asmoli Sambhal Moradabad, UP - 244304 IN

CIN - L15100UP2020PLC136939, Phone No - +91-7302318313

Email : investors@dhampur.com, Website - www.dhampur.com

## Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2025

(₹ in Crore)						
Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Nine Months ended	
		31/Dec/25 (Unaudited)	30/Sep/25 (Unaudited)	31/Dec/24 (Unaudited)	31/Dec/25 (Unaudited)	31/Dec/24 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	760.21	838.36	719.25	2,383.83	1,992.84
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	25.68	-23.40	-8.38	-30.68	-43.10
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	25.68	-23.40	-10.14	-30.68	-44.86
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	16.90	-15.99	-6.86	-21.09	-30.11
5.	Total Comprehensive Income for the period	15.60	-15.02	-6.29	-21.47	-29.40
6.	Paid up Equity Share Capital	66.39	66.39	66.39	66.39	66.39
7.	Other Equity					
8.	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (Refer note (iv))					
	Basic (₹ per share)	2.56	-2.41	-1.03	-3.19	-4.54
	Diluted (Anti-dilutive) (₹ per share)	2.55	-2.41	-1.03	-3.19	-4.54

### Notes:

i) These unaudited consolidated financial results which are published in accordance with Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ('Listing Regulations') have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on January 21, 2026. These unaudited standalone financial results have been prepared in accordance with recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards ('Ind-AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with the relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

ii) These unaudited consolidated financial results have been subjected to a "limited review" by the statutory auditors of the Parent Company. The statutory auditors have expressed an unmodified conclusion in the review report for the quarter and nine months ended December 31, 2025.

iii) The Parent Company has two wholly owned subsidiaries, Sonitron Bio Organics Private Limited & Dhampur International Pte. Limited as on December 31, 2025.

iv) Pursuant to the resolution passed by the shareholders of the Parent Company dated May 4, 2025 via Postal Ballot wherein DBO Employee Stock Option Scheme 2025 was approved, during the quarter ended September 30, 2025, the Parent Company granted 357881 stock options convertible into equal number of equity shares of the Parent Company of face value of ₹ 10/- each, as approved by the Nomination and Remuneration Committee (NRC) of the Parent Company, to the eligible employees of the Parent Company, through Trust route, under the DBO Employee Stock Option Scheme 2025. 'The Parent Company has granted interest free loan to the DBO Employee Welfare Trust (Trust) amounting to ₹ 500,00,000 /- (Rupees Five Crore only) and the Trust has acquired 5,84,000 shares from the market at an average price of ₹ 84.92 per share. Acquisition cost of shares held by the Trust is presented as reduction in 'Other Equity'. Share based payment expense for the quarter and nine months ended December 31, 2025 is ₹ 0.10 crore and ₹ 0.17 crore respectively.

v) Other income for the quarter and nine months ended December 31, 2025 includes insurance claims of ₹ 8.64 Crore and ₹ 17.92 Crore respectively, equivalent to the loss/expenditure incurred due to break downs and accidents during the period respectively, which are accounted and provided for as per consistent accounting policy followed by the Parent Company.

vi) Pursuant to the implementation of the New Labour Codes with effect from November 21, 2025 (the supporting Rules are yet to be notified), the Parent Company has reassessed its employee benefit obligations and recognised defined benefit obligations as per actuarial valuation as at December 31, 2025. The Parent Company is in the process of evaluating other possible impacts, if any. However, management is of the view that impact, if any, is unlikely to be material.

vii) Sugar being a seasonal industry, the performance of the quarter may not be representative of the annual performance of the Company.

viii) Figures for the previous corresponding periods have been regrouped, wherever considered necessary.

ix) The consolidated unaudited financial results are available on the website of the Company (www.dhampur.com).

The specified items of the standalone financial results of the Company are given below:

Particulars	Quarter Ended			Nine Months ended		Year Ended
	31/Dec/25 (Unaudited)	30/Sep/25 (Unaudited)	31/Dec/24 (Unaudited)	31/Dec/25 (Unaudited)	31/Dec/24 (Unaudited)	31/Mar/25 (Audited)
Total Income	714.21	806.58	741.08	2,343.69	2,014.54	2,718.11
Profit/ (Loss) before tax	21.49	-22.94	-9.61	-31.03	-42.43	17.84
Profit/ (Loss) after tax	13.87	-15.53	-6.21	-21.03	-27.56	12.09

For Dhampur Bio Organics Limited

Sd/-

Gautam Goel

Managing Director & CEO

DIN 00076326

Place : New Delhi

Dated: January 21, 2026

**फोनपे ने विवरणिका का मसौदा जमा कराया, सिर्फ ओएफएस की संभावना**

अजिंक्य कावले  
मुंबई, 22 जनवरी

वॉलमार्ट समर्थित फिनटेक कंपनी फोनपे ने विशुद्ध ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के जरिये धन जुटाने के लिए बाजार नियामक के पास अर्धडेटेड विवरणिका का मसौदा (यूडीआरएचपी) जमा कराया है। प्रस्तावित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) में 5.06 करोड़ इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) शामिल है।

वॉलमार्ट इंटरनैशनल होलडिंग्स इंक के स्वामित्व वाली कंपनी डब्ल्यूएम डिजिटल कॉमर्स होलडिंग्स इसकी प्रवर्तक है। उसके समेत मौजूदा निवेशक 4.6 करोड़ शेयर बेचने की योजना बना रहे हैं। टाइगर ग्लोबल और माइक्रोसॉफ्ट क्रमशः 10.39 लाख और 36.78 लाख शेयर बेचेंगी।

बेंगलूरू की फिनटेक कंपनी फोनपे में वॉलमार्ट की 71.77 फीसदी हिस्सेदारी है। जनरल अटलांटिक के पास 8.98 फीसदी और हेडस्टेड के पास 5.73 फीसदी हिस्सेदारी है। फोनपे के सह-संस्थापक समीर निगम और राहुल चारी के पास कंपनी की 2.55-2.55 फीसदी हिस्सेदारी है। फोनपे को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) से आईपीओ के लिए मंजूरी मिलने के एक दिन बाद अर्धडेटेड यूडीआरएचपी जमा कराया गया है।

बताया जाता है कि फोनपे लगभग 15 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर ओएफएस के जरिए करीब 12,000 करोड़ रुपये (1.35 अरब डॉलर) जुटाने की संभावना देख रही है। यह आईपीओ ऐसे समय आ रहा है जब पेट्रीएम, मोबिविक्क, इन्फोबैम एन्वैयूज और पाइन लैब्स सहित कई फिनटेक कंपनियां भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हो चुकी हैं।



**बताया जाता है कि फोनपे लगभग 15 अरब डॉलर के मूल्यांकन पर ओएफएस के जरिए करीब 12,000 करोड़ रुपये जुटाने की संभावना देख रही है**

फोनपे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस में बाजार की अगुआ है और वह रियल-टाइम पेमेंट प्लेटफॉर्म पर हर महीने कुल लेनदेन का लगभग 45 फीसदी प्रोसेस करती है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 में 7,115 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो इससे एक साल पहले की तुलना में 40 फीसदी ज्यादा है। परिचालन से 1,202 करोड़ रुपये के नकदी प्रवाह के साथ कंपनी का मुक्त नकदी प्रवाह भी सकारात्मक हो गया। फोनपे ने वित्त वर्ष 2025 में लाभप्रदता में सुधार किया और एबिटा से पूर्व समायोजित आय (ईसॉप्स) लागत को छोड़कर) पिछले वर्ष के 652 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,477 करोड़ रुपये हो गई, जो दोगुना से भी अधिक है। कर पश्चात समायोजित लाभ (ईसॉप्स लागत को छोड़कर) तीन गुना से अधिक बढ़कर 197 करोड़ रुपये से 630 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

**ट्रंप के यू-टर्न के बीच शेयर बाजारों में राहत**

वैश्विक बाजारों के साथ-साथ भारतीय शेयरों में भी बुधवार को तेजी आई। इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड मसले पर नरम रुख और यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की संभावना से इनकार करना था। लिहाजा, व्यापारिक टकराव गहराने का डर कम हो गया। निवेशक धारणा को तब समर्थन मिला जब ट्रंप ने दावेस में वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम में कहा कि अमेरिका भारत के साथ 'अच्छा समझौता' करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता में प्रगति की उम्मीद जगी है। संसेक्स शुरुआती कारोबार में 874 अंक यानी 1.1 प्रतिशत तक चढ़ गया था। लेकिन मुनाफावसूली के बीच उसने अपनी बढ़त गंवा दी। आखिर में यह 398 अंक यानी 0.5 प्रतिशत की तेजी के साथ 82,307 पर बंद हुआ। निपटी 50 सूचकांक कारोबारी सत्र के अंत में 25,290 पर रहा जो 132 अंक यानी 0.5 प्रतिशत अधिक है। टैरिफ पर नरमी का संकेत देने के अलावा ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए बल प्रयोग से भी इनकार किया।

बीएस